



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012020-215653
CG-DL-E-23012020-215653

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]
No. 34]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
(विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2020

सं. एसईआरबी/आरआर-प्रशासन/02/2018(अ).-विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) की धारा 21 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (प्रशासनिक और गैर-तकनीकी समूह 'क' तथा समूह 'ख' पदों की सेवाओं में भर्ती, वेतन और अन्य निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2014 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (प्रशासनिक और गैर-तकनीकी समूह 'क' तथा समूह 'ख' पदों की सेवाओं में भर्ती, वेतन और अन्य निबंधन तथा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-II में, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (प्रशासनिक और गैर-तकनीकी समूह 'क' तथा समूह 'ख' पदों की सेवाओं में भर्ती, वेतन और अन्य निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2014 में,—

(I) क्रम संख्या 1 में, निदेशक के पद के विरुद्ध,—

(क) स्तम्भ (4), में स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर—13 (₹ 123100—215900)”;

(ख) स्तम्भ (11) में, प्रविष्टि “वेतन बैंड—3, 15600—39100 रुपये ₹ 7600 के ग्रेड वेतन अथवा समतुल्य” के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स के स्तर—12 (78800—209200)” को रखा जाएगा;

(II) क्रम संख्या 2 में, अवर सचिव के पद के विरुद्ध,—

(क) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर—11 (₹ 67700—208700)”;

(ख) स्तम्भ (11),—

(I) “प्रोन्नति” उपशीर्षक के अधीन,— “वेतन बैंड—2, 9300—34,800 रुपये ग्रेड वेतन 4200 रुपये” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (35400—112400) शब्दों को रखा जाएगा, और (पप) उपशीर्षक “प्रतिनियुक्ति” के अधीन,—

(i) “वेतन बैंड — 3, 15600—39100 रुपये में 5400 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रुपये 56100—177500)” को रखा जाएगा, (ii) “वेतन बैंड — 2, 9300—34800 रुपये में 4800 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (रुपये 47600—151100)” को रखा जाएगा, (iii) “वेतन बैंड — 2, 9300—34800 रुपये में 4600 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रुपये 44900—142400)” को रखा जाएगा, (iv) “वेतन बैंड — 2, 9300—34800 रुपये में 4200 रुपये ग्रेड वेतन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रुपये 35400—112400)” को रखा जाएगा;

(III) क्रम संख्या 3 में अनुभाग अधिकारी पद के विरुद्ध,—

(क) स्तम्भ (4) के स्तम्भ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (₹ 35400—112400)”;

(ख) स्तम्भ (6), (7), (9) और (10) से संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा :—

(6)	(7)	(9)	(10)
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार आयु को तीस वर्ष से अधिक शिथिल नहीं किया जा सकता है। टिप्पण : आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री	सीधी भर्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा / जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ग) स्तम्भ (11) के लिए "वेतन बैंड-1, 52200-20200 रुपये में 2800 रुपये के ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5) (29200-92300 रुपये)" को रखा जाएगा।

[विज्ञापन III/4/ असा./421/19]

मधु वधावन सिन्हा, निदेशक

टिप्पण : विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (प्रशासनिक और गैर तकनीकी समूह 'क' तथा समूह 'ख' पदों की सेवाओं में भर्ती, वेतन और अन्य निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2014 को भारत के राजपत्र भाग 3, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्यांक 002/2014/फा.सं.एसआर/एस-9/जेड-08/2011 द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2020

No. SERB/RR-Admn/02/2018 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 read with Section 21 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), the Science and Engineering Research Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Science and Engineering Research Board (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Group 'A' and Group 'B' Posts Administrative and Non-Technical) Regulations, 2014, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Science and Engineering Research Board (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Group 'A' and Group 'B' Posts Administrative and Non-Technical) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule-II to the Science and Engineering Research Board (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Group 'A' and Group 'B' Posts Administrative and Non-Technical) Regulations, 2014,-

(I) against the post of Director at serial number 1, -

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

“ Level in pay matrix
<u>(4)</u>
Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)”;

(b) in column (11), for the entry “pay band -3, Rs.15600-39,100 with grade pay of Rs.7600”, the entry “Level-12 in the pay matrix (Rs.78800- 209200)” shall be substituted;

(II) against the post of Under Secretary at serial number 2,—

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

“ Level in pay matrix
(4)
Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700)”;

(b) in column (11), -

(I) under sub heading “**Promotion**”, - for the words, figures and letters “pay band -2, Rs.9300- 34,800 with grade pay of Rs.4200”, the words “Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)” shall be substituted, and (II) under sub heading “**Deputation**”, -

(i) for the words, figures and letters “pay band-3, Rs.15600-39,100 with grade pay of Rs.5400”, the words “Level 10 in the pay matrix (Rs.56100- 177500)”; shall be substituted, (ii) for the words, figures and letters “pay band-2 Rs.9300-34,800 with grade pay of Rs.4800”, the words “Level 8 in the pay matrix (Rs.47600- 151100); shall be substituted, (iii) for the words, figures and letters “pay band - 2 Rs.9300-34,800 with grade pay of Rs.4600”, the words “Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400); shall be substituted, (iv) for the words, figures and letters “pay band -2 Rs.9300-34,800 with grade pay of Rs.4200”, the words “Level-6 in the pay matrix (Rs.35400- 112400) shall be substituted;

(III) against the post of Section Officer at serial number 3, -

(a) in column (4) for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

“ Level in pay matrix
(4)
Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)”;

(b) in columns (6), (7), (9) and (10) the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

(6)	(7)	(9)	(10)
Not exceeding thirty years. Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be from the closing date of receipt of applications from the candidates.	Essential: Bachelor's Degree from a recognised University.	Two years for direct recruits.	By deputation / absorption failing which by direct recruitment.

(c) in column (11) for the words, figures and letters “Pay Band-1, Rs.5200-20,200 with grade pay of Rs.2800”, the words “Level 5 in the pay matrix (Rs.29200- 92300)” shall be substituted.

[ADVT.-III/4/Exty./421/19]

MADHU WADHAWAN SINHA, Director

Note: The Science and Engineering Research Board (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Group ‘A’ and Group ‘B’ posts Administrative and Non-Technical) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 vide notification number 002/2014/F.NO.SR/S9/Z-08/2011 dated the 24th April, 2014.